

प्रकार-2

लघुतम समापवर्त्य-आधारित

17. 120 और 450 के लघुतम समापवर्तक क्या हैं?

- | | |
|----------|----------|
| (a) 2400 | (b) 1800 |
| (c) 3600 | (d) 4800 |

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 22 अगस्त, 2017 (III-पार्टी)

उत्तर-(b)

व्याख्या—

2	120, 450
2	60, 225
2	30, 225
3	15, 225
3	5, 75
5	5, 25
5	1, 5
	1, 1

∴ संख्या (120, 450) का ल.स.

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \Rightarrow 1800$$

Trick—

$$120 = 2^3 \times 3 \times 5$$

$$450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$$

$$\therefore \text{ल.स.} = 2^3 \times 3^2 \times 5^2$$

$$= 8 \times 9 \times 25 = 72 \times 25 \Rightarrow 1800$$

18. यदि निचों कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तबनुसार, उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है?

- | | |
|--------|--------|
| (a) 60 | (b) 72 |
| (c) 80 | (d) 96 |

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2013

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2008

उत्तर-(d)

व्याख्या— ∴ छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाने पर कोई छात्र नहीं छूटता॥

∴ छात्रों की कुल संभावित संख्या = 6, 8, 12 या 16 का ल.स.

2	6, 8, 12, 16
2	3, 4, 6, 8
2	3, 2, 3, 4
2	3, 1, 3, 2
3	3, 1, 3, 1
	1, 1, 1, 1

$$\therefore \text{ल.स.} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \Rightarrow 48$$

∴ 48 विकल्प में नहीं है।

∴ संभावित संख्या 48 की गुणज होगी।

$$\text{अर्थात् } 48 \times 2 = 96$$

19. 18/5 तथा 20/9 का लघुतम समापवर्त्य क्या है?

- | | |
|--------|---------|
| (a) 60 | (b) 12 |
| (c) 30 | (d) 180 |

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉक्सिंग परीक्षा, 18 सितंबर, 2017 (I-पार्टी)

उत्तर-(d)

$$\begin{aligned} \text{व्याख्या— } \frac{18}{5} \text{ तथा } \frac{20}{9} \text{ का ल.स.} &= \frac{\text{ल.स.}}{\text{नि. कौन्दन}} \\ &= \frac{18 \times 20}{5 \times 9} \\ &= \frac{180}{1} \Rightarrow 180 \end{aligned}$$

20. दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुतम समापवर्त्य है—

- | | |
|---------|--------|
| (a) 13 | (b) 39 |
| (c) 117 | (d) 9 |

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर-(c)

व्याख्या— माना दो असहभाज्य संख्याएं x तथा y हैं, जिनका गुणनफल 117 है।

$$\text{अर्थात् } x \times y = 117$$

∴ इन संख्याओं का ल.स. = संख्याओं का गुणनफल

(∵ संख्याएं असहभाज्य हैं)

$$= 117$$

Trick—

यदि असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया हो, तो वही गुणनफल उनका ल.स. होता है क्योंकि असहभाज्य संख्याओं का म.स. सदैव 1 होता है।

21. तीन लड़के एक ही स्थान से चले। यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेमी., 48 सेमी. और 54 सेमी. थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर से एक साथ कदम रखेंगे?

- | |
|--------------------|
| (a) 2 मी. 32 सेमी. |
| (b) 3 मी. 32 सेमी. |
| (c) 4 मी. 32 सेमी. |
| (d) 1 मी. 32 सेमी. |

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर-(c)

व्याख्या— माना दोनों संख्याओं का म. स. x है।

$$\therefore \text{संख्याओं का ल.स.} = 4x$$

प्रश्न से-

$$x + 4x = 125$$

$$5x = 125$$

$$x = 25$$

\therefore दोनों संख्याओं का म. स. = 25 एवं ल. स. = 100

सूत्र से—

$$\text{पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या} = \text{म. स.} \times \text{ल. स.}$$

$$\text{अतः दूसरी संख्या} = \frac{25 \times 100}{100} \Rightarrow 25$$

Trick—

$$\begin{aligned} \text{दूसरी संख्या} &= \left[\frac{(\text{ल.स.} + \text{म.स.})}{(\text{गुना} + 1)} \right]^2 \times \frac{\text{गुना}}{\text{पहली संख्या}} \\ &= \left[\frac{125}{(4+1)} \right]^2 \times \frac{4}{100} \\ &= 25 \times 25 \times \frac{4}{100} \\ &= 25 \end{aligned}$$

45. दो संख्याओं का ल.स. एवं म.स. का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए।

- (a) 8 और 6
- (b) 8 और 10
- (c) 2 और 4
- (d) 6 और 4

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 1999 2006, 2008

उत्तर—(d)

व्याख्या— माना म.स. = a

$$\text{अतः संख्याएं} = ax, ay$$

$$\text{ल.स.प.} = axy$$

$$\text{ल.स.} \times \text{म.स.} = 24$$

$$a^2xy = 24$$

$$a^2xy = 2 \times 3 \times 2 \times 2$$

$$a^2 = 4$$

$$x = 3$$

$$\text{और } y = 2$$

$$\therefore \text{संख्याएं} = 2 \times 3, 2 \times 2$$

$$= 6 \text{ और } 4$$

Trick—

मान संख्याएं a तथा b हैं, तब

$$a \times b = 24 \quad \dots\dots\dots (i)$$

$$(\therefore \text{पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या})$$

$$= \text{ल.स.} \times \text{म.स.})$$

$$a - b = 2 \quad \dots\dots\dots (ii)$$

$$\therefore (a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$$

$$= 4 + 4 \times 24 \Rightarrow 100$$

$$a + b = 10 \quad \dots\dots\dots (iii)$$

समी. (ii) तथा (iii) से

$$a = 6, b = 4$$

46. 12 के दो गुणकों का लघुतम समापवर्त्य 1056 है। यदि एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या होगी—

- (a) 12
- (b) 72

(c) 96

(d) 132

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

व्याख्या— दूसरी संख्या $= \frac{12 \times 1056}{132} \Rightarrow 96$

47. दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। उनके म.स. तथा ल.स. का गुणनफल 2028 है। संख्याओं का योगफल होगा—

- (a) 68
- (b) 72

- (c) 86
- (d) 91

S.S.C. (डाटा एंट्री ऑपरेटर) परीक्षा, 2009

उत्तर—(d)

व्याख्या— माना कि संख्याएं $3x$ एवं $4x$ हैं।

$$\therefore 4x \text{ एवं } 3x \text{ का म.स.} = x$$

$$\text{तथा ल.स.} = 12x$$

प्रश्नानुसार

$$x \times 12x = 2028$$

$$12x^2 = 2028$$

$$x^2 = 169$$

$$x = 13$$

$$\therefore \text{संख्याओं का योग} = 3x + 4x$$

$$= 7x$$

$$= 7 \times 13 \Rightarrow 91$$

48. दो संख्याओं, जिनमें से प्रत्येक में तीन अंक हैं, का महत्तम समापवर्त्य 17 है तथा उनका लघुतम समापवर्त्य 714 है। संख्याओं का योगफल होगा—

- (a) 289
- (b) 391

- (c) 221
- (d) 731

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2007

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2005, 2011

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना कि संख्याएं $17x$ एवं $17y$ हैं, यहां x और y परस्पर अभाज्य हैं।

$$17x \text{ एवं } 17y \text{ का ल.स.} = 17xy$$

प्रश्नानुसार

$$17xy = 714$$

$$xy = \frac{714}{17}$$

$$xy = 42 = 7 \times 6$$

$$x = 6, y = 7$$

$$\text{या } x = 7 \text{ तथा } y = 6$$

